

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM  
BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI BẢO KHIẾP ÂN ĐÀ LA NI

Dịch âm: HUYỀN THANH

गाय शब तवागत गीधिष्ठान दूदयगुञ्च धतु करण्ड  
一切如來心秘密全身舍利寶印陀羅尼

नमस तयधिकाना शक्तवागताना  
गौ तव तवन वर व वर व वह  
दत्तदत्त धवधर शब तवागत धतु  
धर वज्ञा तवात जय वर मुद्रीर शब  
तवागत धम वस वक्तन  
वीक्ष वाधि मश मलेकास्मलेकृत  
शब तवागत गीधिष्ठत  
वाधय वाधय वाधि वाधि वथ वथ  
रंवाधनि रंवाधय दत्तदत्त दत्तह  
शब मावस्ताने शब याय विगत दूस दूस  
शब छाक विगत शब तवागत दूदय

वीक्षने रंतरंतर शब तवागत गुञ्च धर्मवा मुव दृष्ट शब तवागत गीधिष्ठत धतु गत खाता ॥

नमय गीधिष्ठत खाता ॥

शब तवागत दूदय धतु मुद्र खाता ॥

रंवातीष्ठत मूय तवागत गीधिष्ठत दूसदूस दे दे खाता ॥

गौ शब तवागत लक्षीय धतु मुद्रवा शब तवागत र धतु वितीक्ष गीधिष्ठत दे दे खाता ॥

ĀRYA- SARVA-TATHĀGATA ADHIṢṬHITI HRDAYA-GUHYA-DHĀTU-KARANDA

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI BẢO KHIẾP  
ÂN ĐÀ LA NI

NAMAS TRAYA-DHVIKĀNĀM SARVA TATHĀGATĀNĀM  
OM BHUVI-BHAVANAVARE VA VARE VACATE  
SULU SULU DHARA DHARA SARVA-TATHĀGATA-DHĀTU  
DHARE PADMĀM BHAVATI JAYA-VARE MUCURI SMARA  
TATHĀGATA-DHARMA-CAKRA PRAVARTANA  
VAJRI-BODHI-MĀNDĀ ALAMKARA ALAMKRTE  
SARVA-TATHĀGATA ADHIṢṬHITE BUDHYA BUDHYA

BODHAYA BODHAYA BODHI BODHI  
SAMBODHINI SAMBODHIYA CALA CALA CALANTU  
SARVA-ĀVARAÑĀNI SARVA-PĀPA VIGATE HURU HURU  
SARVA-ŚOKA VIGATE SARVA-TATHĀGATA-HRDAYA  
VAJRINI SAMBHARA SAMBHARA SARVA-TATHĀGATA-GUHYA-  
DHĀRANĪ-MUDRE BUDDHE SUBUDDHE SARVA-TATHĀGATA-  
ADHIṢṬHITA DHĀTU-GARBHE SVĀHĀ  
SAMAYA ADHIṢṬHITE SVĀHĀ  
SARVA-TATHĀGATA-HRDAYA DHĀTU-MUDRE SVĀHĀ  
SU-PRATIṢṬHITA-STŪPE TATHĀGATA-ADHIṢṬHITI HURU HURU  
HŪM HŪM SVĀHĀ  
OM\_ SARVA-TATHĀGATA-UṢNĪṢA-DHĀTU-MUDRAÑI SARVA-  
TATHĀGATAM SA-DHĀTU VIBHUṢITA ADHIṢṬHITE HŪM HŪM SVĀHĀ

10/04/2014

Namas try-adhvikānām̄ sarva- Tathāgatānām̄  
 नमः त्र्याद्विकानाम् सर्वा तथागतानाम्  
 Om ! Bhumi- bhavana- vari vā cari ca caṭāḥ.  
 ओऽभुवि भवना वरी वा चरी च चटाः  
 Culu culu, dhara dhara, sarva-tathāgata- dhātu- dhari, padmaṇaṁ bhavati  
 चुलु चुलु धारा धारा सर्वा तथागता धातु धारा पद्माणं भवति  
 Jaya-vari, mucuri, smara, tathāgata- dharma- cakra pra-mardana.  
 जया वरी मुचुरी स्मरा तथागता धर्मा चक्र प्रामर्दना  
 Vajri- bodhi- maṇḍa- alaṁ- kāra- alaṁ- kṛte.  
 वज्री बौद्धि मण्डा अलम् कारा अलम् कृते  
 Sarva- Tathāgata- adhiṣṭhite. Bodhaya bodhaya.  
 सर्वा तथागता अधिष्ठिते बौद्धया बौद्धया  
 Bodhi bodhi, budhya budhya; sam̄ bodhaya, sam̄ bodhaya.  
 बौद्धि बौद्धि बुद्धि बुद्धि समं बौद्धया समं बौद्धया  
 Cala cala, calantu sarva- ā-varaṇāni, sarva- pāpa- vigate.  
 चला चला चलान्तु सर्वा आवराणानि सर्वा पापा विगते  
 Huru huru, sarva- śoka- vigate. Sarva- tathāgata- hrdaya, Vajrini, saṁbhāra,  
 हुरु हुरु सर्वा शोका विगते सर्वा तथागता हृदय वज्रिनी सम्भारा  
 Sarva- tathāgata- guhya- dhāraṇī- mudre buddhe su-buddhe  
 सर्वा तथागता गुह्या धाराणी मुद्रे बुद्धे सुबुद्धे  
 Sarva- tathāgata- adhiṣṭhita dhātu- garbhe. svāhā. Samaya- adhiṣṭhite svāhā.  
 सर्वा तथागता अधिष्ठिता धातु गर्भे स्वाहा समया अधिष्ठिता स्वाहा  
 Sarva- tathāgata- hrdaya dhātu- mudre svāhā.  
 सर्वा तथागता हृदय धातु मुद्रे स्वाहा  
 Su-prati-śṭhita- stūpe, tathāgata- adhiṣṭhite. Huru huru, Hūṁ ! Hūṁ ! Svāhā.  
 सुप्रतिष्ठिता स्तूपे तथागता अधिष्ठिते हुरु हुरु हूम् ! हूम् ! स्वाहा  
 Om ! Sarva- tathāgata- uṣṇīṣa- dhātu mudraṇi.  
 ओऽसर्वा तथागता उष्णीषा धातु मुद्राणि  
 Sarva- Tathāgatānām̄ sa-dhātu- vi-bhūṣita- adhiṣṭhite. Hūṁ ! Hūṁ ! Svāhā.  
 सर्वा तथागतानाम् साधातु विभूषिता अधिष्ठिते हूम् ! हूम् ! स्वाहा

譯自：大正藏 1022A 「一切如來心秘密全身舍利寶鏡印陀羅尼經」—不空三藏法師譯  
 對照參考：「房山石經版一切如來心」—房山石經-釋教最上乘秘密藏陀羅尼集 Pg.25  
 彭偉洋 翻譯及悉曇梵文制作 [www.siddham-sanskrit.com](http://www.siddham-sanskrit.com)